

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे नो/62/2018

दिनांक: 13 सितम्बर, 2018

प्रेस नोट

विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए साइन लैंग्वेज प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करना।

भारत निर्वाचन आयोग ने सुगम निर्वाचनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए ईसीआई मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को आईएसएलआरटीसी (इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर) के सहयोग से आयोग के पदाधिकारियों के लिए साइन लैंग्वेज प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।



कैपशन: साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ ईसीआई पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जब वे अंगुलियों से वर्तनी वर्णमाला का अभ्यास कर रहे हैं।

इस प्रशिक्षण का संचालन आईएसएलआरटीसी (इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर) के विशेषज्ञों द्वारा किया गया था, जिसमें अधिकारियों को आधारभूत और निर्वाचन संबंधी साइन लैंग्वेज प्रतीक चिन्हों यथा निर्वाचन, पहचान पत्र, पता और मतदान बूथ इत्यादि से परिचित कराया गया। इसके अतिरिक्त, आयोग के पदाधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हुए बुनियादी शिष्टाचार के संबंध में भी जानकारी दी गई और उन्हें बधिर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के संबंध में संवेदनशील बनाया गया। इस सत्र में पदाधिकारियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखी गई। बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों/बधिर मतदाताओं से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए छद्म मतदान के लाइव प्रदर्शन के माध्यम से सुग्राहिता क्रियाकलाप का संचालन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य निर्वाचन पदाधिकारियों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना था ताकि उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा एवं पूरा किया जा सके और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके।

जुलाई, 2018 में भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में सुगम निर्वाचनों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय मंत्रणा आयोजित की, जहां आयोग ने निर्वाचन पदाधिकारियों के संवेदीकरण और प्रशिक्षण सहित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सुविधा प्रदान करने संबंधी अनेक उपायों की घोषणा की।

(पवन दीवान)
अवर सचिव